

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 जनवरी 2010—पौष 23, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी, 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक, की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला सिवनी

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	जोन क्रमांक एवं नाम	जोनल अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा पता	मोबाईल नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिवनी	1. बखारी	श्री भगवान श्रीराम, सहायक यंत्री, कार्यालय मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जलसंसाधन विभाग, सिवनी.	9406600116
2	सिवनी	2. दिघोरी	श्री नक्कासे, अ.वि.अ. लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्रमांक 01, सिवनी.	
3	सिवनी	3. मारबोडी	श्री अशोक चढार, कार्यपालन अधिकारी, अन्तव्यवसायी, सिवनी.	9425860232
4	सिवनी	4. हथनापुर	श्री श्यामलाल झारिया, परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिविकास परियोजना, सिवनी.	9424316836

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	सिवनी	5. सोनाडोंगरी	श्री एस. पी. अहिरवार, सहायक यंत्री कृषि अभियांत्रिकी, सिवनी.	9424415932
6	सिवनी	6. बण्डोल	श्री जे. के. यदुवंशी, अ. वि. अ. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सिवनी.	9755038585
7	सिवनी	7. कलारबांकी	श्री जे. आर. शिवहरे, संलग्न अधिकारी कार्यालय वन संरक्षक वन वृत्त, सिवनी.	
8	सिवनी	8. चंदनवाडा कला	श्री एस. एन. डोंगरे, कार्यपालन यंत्री, कार्या. लो.नि.वि. सेतु निगम, सिवनी.	07692-220686
9	सिवनी	8. छुई	श्री एस.एस. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी.	07692-220403 9424691883
10	सिवनी	10. कान्हीवाड़ा	श्री एन. के. तारन, वरिष्ठ जिला पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक, जिला सिवनी.	9424384639
11	सिवनी	11. मेहरापिपरिया	श्री अनवर खान, उप पंजीयक, कार्या. उप पंजीयक एवं मुद्रांक, सिवनी.	9425426786
12	सिवनी	12. भोमा	श्री एन. के. श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, अशोकनगर बारापत्थर, सिवनी.	9425869731
13	सिवनी	13. करकोटी	श्री डी.आर. चौधरी, सहायक यंत्री, अपर बैनगंगा कालोनी सिवनी.	9301165590
14	सिवनी	14. बींझावाडा रैयत	श्री एस. के. किनकर, उप वन मण्डल अधिकारी, सिवनी	9424795936
15	सिवनी	15. फुलारा	श्री वाय. के. दिवाकर, सहायक यंत्री कार्या. मुख्य अभियंता बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी.	9424352609
16	सिवनी	16. कातलबोडी	श्री विजय आनंद कुल्हारा, ए.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी	9424364257
17	सिवनी	17. गोपालगंज	श्री प्रभाकर वाहने, ए.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र, सिवनी	9893160979
विकासखण्ड सिवनी हेतु रिजर्व जोनल अधिकारी				
18	सिवनी	1.	श्रीमति साधना पाठक, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिवनी	9424716314
19	कुरई	1. धोबीसरा	श्री आर. के. गढ़पाले, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कुरई	9424795967

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	कुरई	2. चक्कीखमरिया	श्री एस. के. श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, कुरई.	9425174791
21	कुरई	3. घाटकोहका	श्री कमल अंरोरा, अ.वि.अ. रूखड वन विभाग, कुरई	9424794110
22	कुरई	4. बादलपार	श्री बी. एल. तिवारी, परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व खवासा वन विभाग, कुरई.	9424794131
23	कुरई	5. कुरई	श्री पी. के. खरे, सहायक यंत्री, रा.ग्रा.रो.गा.स्कीम जनपद पंचायत, कुरई.	9425175778
24	कुरई	6. पीपरवानी	श्री एम. के. भट्ट, परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग, कुरई	9424794117
25	कुरई	7. खबासा	श्री रविन्द्र डहेरिया, विकास खण्ड अधिकारी, जनपद, कुरई	07695-246426
विकासखण्ड कुरई हेतु रिजर्व जोनल अधिकारी				
26		3.	श्री पी. के. श्रीवास्तव, बी.आर.सी. कुरई	9425843589
27		2.	श्री एस. सी. त्रिपाठी, अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग, सिवनी	
28	बरघाट	1. मलारा	श्री प्रमोद कुमार पाण्डे, अतिरिक्त का.पा. अधि. रा. ग्रा. स्कीम जनपद पंचायत, बरघाट.	9407025458
29	बरघाट	2. खारी	श्री अनंत कुमार राहंगडाले, वि.ख. श्रोत समन्वयक, बरघाट	9425447039
30	बरघाट	3. बम्होडी	श्री आर. एस. सरणागत, पशु चिकित्सा अधिकारी, बरघाट	9993965410
31	बरघाट	4. लोहारा	श्री एस. एन. जायसवाल, अ.वि.अ. जलसंसाधन विभाग, बरघाट	9993536101
32	बरघाट	5. मंडी	श्री सी.एस. बघेल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य वन मण्डल बरघाट.	9424794112
33	बरघाट	6. अतरी	श्री एन. एस. पटोती, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट विद्या., बरघाट	9424381865
34	बरघाट	7. धारना कला	श्री हरनारायण तिवारी, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्या. आष्टा	9009268755
35	बरघाट	8. कल्याणपुर	श्री अशोक कुमार उइके, प्राचार्य शासकीय उच्चतर मा. वि. विजयपानीकला.	9407315815
36	बरघाट	9. आष्टा	श्री सुधीर कुमार नायक, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर मा. वि. चिमनाखारी.	9754500098
37	बरघाट	10. धपारा	श्री जी. पी. पाण्डे, जिला आबकारी अधिकारी, सिवनी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	बरघाट	11 अरी	श्री कामेश्वर प्रसाद शिव, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्य. विद्या. गंगेरूआ.	9179689816
39	बरघाट	12 आमगढ	श्री प्रहलाद सिंह बघेल, प्राचार्य शासकीय उच्चतर कन्या माध्य. विद्यालय, बरघाट.	9425427251
विकासखण्ड बरघाट हेतु रिजर्व जोनल अधिकारी				
40		1.	श्री आर. पी. जायसवाल, संयुक्त संभाग प्रबंधक, कार्यालय वन मण्डल (बरघाट), सिवनी.	
41		2.	श्री एस. के. धुर्वे, ए.एस.सी.ओ. सहायक भू संरक्षक, सिवनी	
42		3.	कमल सिंह राजपूत, प्राचार्य शासकीय उ. मा. वि. अरी.	9752264354
43	केवलारी	1. पलारी	श्री आर.एस. चौधरी, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, केवलारी.	9424653033
44	केवलारी	2. लोपा	श्री भरत सिंह बघेल, सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग, केवलारी	9424889253
45	केवलारी	3. केवलारी	श्री आर. के. श्याम, विकास खण्ड अधिकारी, केवलारी	9424399115
46	केवलारी	4. अहरवाडा	श्री पी. सी. मेश्राम, अ.वि.अ.ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, केवलारी.	9407307888
47	केवलारी	5. छींदा	श्री के. एस. इनवाती, अ.वि.अ. लो.नि.वि., केवलारी	9407045750
48	केवलारी	6. खैररांजी	श्री के. पी. पटेल, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत केवलारी, एन.आर.ई.जी.एस.	9424691168
49	कोवलारी	7. बगलई	श्री सहदेव सिंह मरावी, प्राचार्य शासकीय डाईट, केवलारी	9425163863
50	केवलारी	8. उगली	श्री बी.पी. अहिरवार, अ.वि.अ.लो.स्वा. विभाग, उगली	9425864017
51	केवलारी	9. सरेखाकला	श्री वहीजोसफ, सहायक यंत्री, लोक स्वा.यां. केवलारी	9425174764
52	केवलारी	10. पाण्डयाछपारा	श्री आर.एस. नाग, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, केवलारी.	9425164734

विकासखण्ड केवलारी हेतु रिजर्व जोनल अधिकारी

53		1.	श्री पी. के. चोपड़ा, सहायक यंत्री, पी.एच.ई. केवलारी	9425830443
54		2.	श्री यू. एस. ठाकुर, सहायक यंत्री जनपद पंचायत केवलारी	9424716578

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	लखनादौन	1. नागनदेवरी	श्री मनोज वानखेडे, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बालविकास, लखनादौन.	9424747826
56	लखनादौन	2. धूमा	श्री एस. एल. विश्वकर्मा, प्रभारी सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लखनादौन.	9424302867
57	लखनादौन	3. बावली	श्री कैलाश नीरज, परियोजना प्रशासक लखनादौन परियोजना कार्यालय, लखनादौन.	07690240140(O) 07690240146(R)
58	लखनादौन	4. सिहोरा	श्री ए. के. वर्मा, सहायक यंत्री, रोजगार गारंटी जनपद पंचायत, लखनादौन.	9424393500
59	लखनादौन	5. खमरिया गोसाईं	श्री आर. के. रामजे, सहायक भू संरक्षण अधिकारी, लखनादौन	9425152354
60.	लखनादौन	6. धनककडी	श्री ए. के. त्रिवेदी, अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग, लखनादौन	9425008751
61.	लखनादौन	7. जोबा पतलोन	श्री डी. एस. चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लखनादौन.	9406721255
62	लखनादौन	8. मढ़ी	श्री महेन्द्र उडके, अ.वि.अ. वन विभाग, लखनादौन	9424794151
63	लखनादौन	9. आदेगांव	श्री डी. के. वासनिक, सहायक वन संरक्षक वन विद्यालय, लखनादौन.	9424796534 9425818921
64	लखनादौन	10. गनेशगंज	श्री के. एल. राय, अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग, लखनादौन	9425412412
विकासखण्ड लखनादौन हेतु रिजर्व जोनल अधिकारी				
65		1.	श्री आर. एस. ठाकुर, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, लखनादौन	
66		2.	श्रीमति मंजुला वर्गमेन, प्राचार्य शासकीय उच्चतर मा. शाला, धूमा	
67	छपारा	1. गोरखपुर	श्री सी. बी. मादलापुरे, सहायक यंत्री लो.स्वा.यां., छपारा	9584069443
68	छपारा	2. चमारीखुर्द	श्री बी. के. उपाध्याय, बी. आर. सी., छपारा	9977857848
69	छपारा	3. केकडा	श्री एस. के. सोने, वरि. कृषि विस्तार अधिकारी, छपारा	9425775320
70	छपारा	4. भीमगढ़	डॉ. एस. एन. पाण्डे, पशु चिकित्सा अधिकारी, छपारा	9407013980
71	छपारा	5. सागर लु.	श्री वाय. के. सोनी, उपयंत्री जनपद पंचायत, छपारा	9425148189
72	छपारा	6. माहुलपानी	श्री एस. के. खरे, रेंज आफिसर वन विभाग, छपारा	9424794155

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	छपारा	7. रामगढ़	श्री एस. के. चौंसिया, उपयंत्री अपर बैनगंगा क्र. 2, छपारा	9424388263
74	छपारा	8. सादकसिवनी	श्री ए. एस. गौतम, उपयंत्री जनपद पंचायत, छपारा	9425445780
75	छपारा	9. छपारा	श्री एस. के. श्रीवास्तव, सहायक यंत्री, जल संसाधन उप संभाग छपारा.	9425150623
76	छपारा	10. सुकरी (भी.)	श्री वाय. पी. जोशी, उपयंत्री, जल संसाधन, छपारा	9425843566
विकासखण्ड छपारा हेतु रिजर्व जेनल अधिकारी				
77		1.	श्री एच. आर. उइके, प्राचार्य उत्कृष्ट वि. छपारा,	9425175211
78		2.	श्री पी. के. गजभिये, प्राचार्य, शासकीय उ.मा.शा. चमारी	9407374874
79		3.	श्री एस. आर. बेलवंशी, सहायक प्राध्या. शास. स्ना. महा. छपारा	9424986507
80		4.	श्री वरुणराव वंशोडकर, सहायक प्राध्या. शास. स्ना. महा. छपारा	9425139730
81	धनौरा	1. सालीबाडा	श्री यू.एस. सोनी, उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत धनौरा.	9425166074
82	धनौरा	2. बेगरवानी	श्री आर.आर. खान, उपयंत्री जनपद पंचायत, धनौरा	9425834182
83	धनौरा	3. धनौरा	श्री एस. के. नाग, उपयंत्री जनपद पंचायत, धनौरा	9425839435
84	धनौरा	4. पिपरिया (भसूडा)	श्री राजेश बरकडे, उपयंत्री, जनपद पंचायत, धनौरा	9424664310
85	धनौरा	5. सुनवारा	श्री एस.आर. देवफोड़े, अ.वि.अ. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, धनौरा	9424680268
86	धनौरा	6. कुडारी	श्री एस. के. रंगारे, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा, धनौरा	9407045875
विकासखण्ड धनौरा हेतु रिजर्व जेनल अधिकारी				
87		1.	श्री एस. आर. गुप्ता, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, धनौरा	9424939258
88		2.	श्री आर. पी. मेहरा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, धनौरा	9424939747
89	घंसौर	1. दिवारी	श्री एच. पी. डहेरिया, प्राचार्य उच्च. मा., दिवारी	9407000140
90	घंसौर	2. बरेला	श्री ल्याकत अली, वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिकारा	9424794187
91	घंसौर	3. अतरिया	श्री जे. एस. चंदेल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, घंसौर	9424794181
92	घंसौर	4. मेहता	श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, घंसौर.	9425484122
93	घंसौर	5. कहानी	श्री भरत शिवहरे, प्राचार्य बालक उच्च. मा. शाला कहानी	9009182615
94	घंसौर	6. खमरिया बाजार	श्री जे. के. मर्सकोले, सहायक यंत्री, जल संसाधन, केवलारी	
95	घंसौर	7. घंसौर	श्री आर. बी. सिंग, सहायक संचालक मतस्य, सिवनी	9826935379
96	घंसौर	8. केदारपुर	श्री एच. एल. पारधी, सहायक संचालक उद्यानिकी, सिवनी	9425898693
97	घंसौर	9. झिंझरई	श्री आर. के. सिंघल, अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग, घंसौर	9425162584

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98	घंसीर	10. पाटन	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, वन परिक्षेत्र अधिकारी कहानी	9424794184
99	घंसीर	11. भित्ताई	श्री आर. के. शुक्ला, सहायक वन संरक्षक कार्यालय वन संरक्षक वन वृत्त, सिवनी.	9425162604
100	घंसीर	12. मानेगांव	श्री एस. एस. उडके, प्राचार्य, बालक उ.मा. विद्या. घंसीर	9424573432
विकासखण्ड घंसीर हेतु रिजर्व जोनल अधिकारी				
101			श्री के. सी. वंशकार, प्राचार्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्या. कहानी.	9424364094

1. श्री वी. आर. इनवाती, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, सिवनी
2. श्री ए. एस. चौधरी, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, सिवनी
3. श्री टीका राम रहगडाले, राजस्व निरीक्षक, कुरई
4. श्री कमल साहू, राजस्व निरीक्षक, सुकतरा
5. श्री भूरे खान, राजस्व निरीक्षक, सिवनी भाग-1
6. श्री सुरेश साहू, राजस्व निरीक्षक, सिवनी भाग-2
7. श्री राजेन्द्र तेकाम, राजस्व निरीक्षक, बंडोल
8. श्री राजेन्द्र भगत, राजस्व निरीक्षक, भोमा,
9. श्री सीताराम साहू, राजस्व निरीक्षक, बरघाट
10. श्री लक्ष्मण सिंह मेश्राम, राजस्व निरीक्षक, गंगेरूआ
11. श्री श्याम सेठ राय, राजस्व निरीक्षक, पलारी
12. श्री नारायण प्रसाद पारदी, राजस्व निरीक्षक, केवलारी
13. श्री देवी प्रसाद चौधरी, राजस्व निरीक्षक, उगली
14. श्री रामदास शिवहरे, राजस्व निरीक्षक, धनौरा
15. श्री दिनेन्द्र श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक, कहानी
16. श्री शिवचरण भौसले, राजस्व निरीक्षक, घंसीर
17. श्री भगवानदास रैदास, राजस्व निरीक्षक, धूसा
18. श्री राजीव नेमा, राजस्व निरीक्षक, लखनादौन
19. श्री पन्नालाल यादव, राजस्व निरीक्षक, आदेगांव
20. श्री केशी राम चौकसे राजस्व निरीक्षक, छपारा
21. श्री सुखलाल पटले, राजस्व निरीक्षक, नजूल कार्यालय सिवनी
22. श्री राम कुमार अवस्थी, राजस्व निरीक्षक, डायवर्सन सिवनी
23. श्री प्रेमचन्द मर्सकोले, रा.नि. भू-अभिलेख, सिवनी
24. श्री एस. के. सनोडिया, राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, सिवनी
25. श्री साधूलाल राहंगडाले, राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, सिवनी
26. श्री याशीन कुरैशी, राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, सिवनी
27. श्री ओंकार प्रसाद सराठे, राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, सिवनी
28. श्री रामेश्वर प्रसाद भावरे, राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, सिवनी